



::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::  
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE



द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2<sup>nd</sup> Floor, GST Bhavan

रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: commrapl3-cexamd@nic.in

रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा:-DIN-20211064SX0000444FF1

क	अपील / फाइल नं./ Appeal / File No.	मूल आदेश सं / O.I.O. No.	दिनांक/ Date
	V2/372/RAJ/2009	134/2009-10	18.09.2009

अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

**KCH-EXCUS-000-APP-238-2021**

आदेश का दिनांक / Date of Order:	जारी करने की तारीख / Date of issue:
20.10.2021	20.10.2021

श्री अखिलेश कुमार, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Akhilesh Kumar, Commissioner (Appeals), Rajkot.

- ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /  
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :  
घ अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant/Respondent :-

**M/s. Kutch Chemicals Industries Ltd., Survey No. 166/1 & 2, Village - PADANA, Taluka : Gandhidham- Kutchh,**

इस आदेश (अपील) से व्यक्त कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/  
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

- (A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है। /

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

- (i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए। /

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

- (ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (मिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन अमारवा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए। /

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2<sup>nd</sup> Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

- (iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उम शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/-, Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

- (B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती है एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उम शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-



- (i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवानी, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा महायुक्त आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जर्माना विवादित है, या जर्माना, जब केवल जर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपये से अधिक न हो।  
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
- धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
  - सेनबेट जमा की ली गई मूलत राशि
  - सेनबेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं- 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होंगे। / For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,
- Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
- amount determined under Section 11 D;
  - amount of erroneous Cenvat Credit taken;
  - amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :  
**Revision application to Government of India:**  
इस आदेश की पुनरीक्षण या चिका निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाता चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:
- यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
  - भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
  - यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
  - मुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो छूटी क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं- 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
  - उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
  - पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।  
जहां संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।  
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
  - यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की निम्न पट्टी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
  - यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
  - सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
  - उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलाधी विभागीय वेबसाइट [www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in) को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website [www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in).



:: ORDER-IN-APPEAL ::

M/s Kutch Chemical Industries Ltd, Kutch (hereinafter referred to as "Appellant") has filed Appeal No. V2/372/RAJ/2009 against Refund Order No. 134/2009-10 dated 18.9.2009 (*hereinafter referred to as "impugned order"*) passed by the Deputy Commissioner, erstwhile Central Excise Division, Gandhidham (*hereinafter referred to as "refund sanctioning authority"*)

2. The facts of the case, in brief, are that the Appellant was engaged in the manufacture of excisable goods falling under Chapter No. 28 & 29 of the Central Excise Tariff Act, 1985 and was holding Central Excise Registration No. AABCK8460AXM001. The Appellant was availing benefit of exemption under Notification No. 39/2001-CE dated 31.07.2001, as amended (*hereinafter referred to as 'said notification'*). As per scheme of the said Notification, exemption was granted by way of refund of Central Excise duty paid in cash through PLA as per prescribed rates and refund was subject to condition that the manufacturer has to first utilize all Cenvat credit available to them on the last day of month under consideration for payment of duty on goods cleared during such month and pay only the balance amount in cash. The said notification was subsequently amended vide Notification No. 16/2008-CE dated 27.03.2008 and Notification No. 33/2008-CE dated 10.06.2008, which altered the method of calculation of refund by taking into consideration the duty payable on value addition undertaken in the manufacturing process, by fixing percentage of refund ranging from 15% to 75% depending upon the commodity.

2.1 The Appellant had filed annual claim of refund for the year 2008-09 for the differential duty paid on clearance of goods in terms of Para 2.2 of the said Notification. The refund sanctioning authority vide the impugned order sanctioned differential amount of Rs. 73,18,091/- and rejected remaining claimed amount.

3. Being aggrieved, the Appellant has preferred the present appeal, *inter-alia*, on the grounds that,

- (i) As per para 2.2 of the said notification, it is clear that if a manufacturer is granted less total refund than total duty payable on value addition during the financial year, then the Assistant Commissioner of Central Excise shall grant the differential refund to the assessee. Further, for calculating the differential amount of refund under para 2.2, refund sanctioned is less than the total duty paid through PLA on total the eligible goods then, the differential amount has to be refunded



addition as per prescribed rate.

10.1 I find that refund under said notification is sanctioned as per procedure set forth in said notification, which is reproduced as under:

“2B The exemption contained in this notification shall be given effect to in the following manner, namely :-

(a) the manufacturer shall submit a statement of the total duty paid and that paid by utilization of CENVAT credit, on each category of goods specified in the said Table and cleared under this notification, to the Assistant Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, by the 7th of the next month in which the duty has been paid;

(b) the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, after such verification as may be deemed necessary, shall refund the duty payable on value addition, computed in the manner as specified in paragraph 2 to the manufacturer by the 15th of the month following the one in which the statement as at clause (a) above has been submitted.”

11. In backdrop of above provisions and on examining the facts of the case, I find that the Appellant was engaged in the manufacture of goods falling under Chapter Nos. 28 and 29 of the Central Excise Tariff Act, 1985. The goods falling under Chapter 28 were eligible for refund considering value addition @36% as per Sl. No. 16 of Table contained in Para 2 of said notification. Similarly, goods falling under Chapter 29 were eligible for refund considering value addition @29% as per Sl. No. 1 of Table contained in Para 2 of said notification. The Appellant was required to file monthly claim of refund in respect of both goods separately as stipulated in clause (a) of Para 2B reproduced above and their refund claims would have been processed separately for each product considering total duty paid through PLA and by utilizing Cenvat credit and rate of value addition. Since monthly refund claims were processed separately for each product by considering total duty paid through PLA, Cenvat credit and rate of value addition, it is natural that annual claim for determining differential duty in terms of Para 2.2 is also required to be processed product wise. On going through the impugned order, I find that the refund sanctioning authority has determined differential duty by considering total duty paid through PLA, Cenvat credit, duty payable as per rate of value addition and refund admissible as per Para 2 of said notification in a financial year separately for each product and I do not find any infirmity in the procedure so adopted by the refund sanctioning authority. The Appellant's contention to combine figures of total duty paid through PLA and Cenvat credit for both the products for determining differential duty cannot be accepted due to reason



*du*

that rates of value addition in respect of both the products were different and even their monthly refund claims would have been processed separately for both the products as provided in Para 2B above. I, therefore, discard the contention of the Appellant being devoid of merit.

12. The Appellant has contended that rejection of Education Cess and Secondary and Higher Education Cess from the refund claimed under Notification No. 39/2001-CE dated 31.7.2009, is not sustainable. As per Section 93(3) of the Finance Act, 2004 and Section 138 of the Finance Act, 2007, all provision of Central Excise Act, including those relating to refund, exemption will also apply to Education Cess and SHE Cess. The exemption provisions of notification 39/2001 CE dated 31.07.2001, as amended, is also applicable to the Education Cess & Secondary & Higher Secondary Education Cess.

12.1 I find that issue regarding refund of Education Cess and Secondary and Higher Education Cess is no longer *res integra* and stand decided by the Hon'ble Supreme Court in the case of Unicorn Industries reported at 2019 (370) ELT 3 (SC), wherein it has been held that,

"40. Notification dated 9-9-2003 issued in the present case makes it clear that exemption was granted under Section 5A of the Act of 1944, concerning additional duties under the Act of 1957 and additional duties of excise under the Act of 1978. It was questioned on the ground that it provided for limited exemption only under the Acts referred to therein. There is no reference to the Finance Act, 2001 by which NCCD was imposed, and the Finance Acts of 2004 and 2007 were not in vogue. The notification was questioned on the ground that it should have included other duties also. The notification could not have contemplated the inclusion of education cess and secondary and higher education cess imposed by the Finance Acts of 2004 and 2007 in the nature of the duty of excise. The duty on NCCD, education cess and secondary and higher education cess are in the nature of additional excise duty and it would not mean that exemption notification dated 9-9-2003 covers them particularly when there is no reference to the notification issued under the Finance Act, 2001. There was no question of granting exemption related to cess was not in vogue at the relevant time imposed later on vide Section 91 of the Act of 2004 and Section 126 of the Act of 2007. The provisions of Act of 1944 and the Rules made thereunder shall be applicable to refund, and the exemption is only a reference to the source of power to exempt the NCCD, education cess, secondary and higher education cess. A notification has to be issued for providing exemption under the said source of power. In the absence of a



notification containing an exemption to such additional duties in the nature of education cess and secondary and higher education cess, they cannot be said to have been exempted. The High Court was right in relying upon the decision of three-Judge Bench of this Court in Modi Rubber Limited (supra), which has been followed by another three-Judge Bench of this Court in Rita Textiles Private Limited (supra). ”

12.2 By respectfully following the above judgement, I hold that the appellant is not eligible for refund of Education Cess and Secondary & Higher Education Cess.

13. In view of above, I uphold the impugned order and reject the appeal.

14. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

14. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above.

सत्यापित,

✓

विपुल शाह

अधीक्षक (अपील)

(AKHILESH KUMAR)  
Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

To,  
M/s Kutch Chemical Industries Ltd,  
Village Padana,  
Near Aquagel Chemicals,  
Taluka : Gandhidham,  
District : Kutch.

प्रतिलिपि :-

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीधाम आयुक्तालय, गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीधाम (ग्राम्य) मण्डल, गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- ✓ 4) गार्ड फाइल।

